

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लिखित प्रश्न सं. 1907  
गुरुवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना**

**1907. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में पर्यटन उद्योग को किसी बीमारी अथवा महामारी या मानसून के बाद प्राकृतिक आपदा अथवा आतंकी घटनाओं के कारण प्रत्येक वर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन उद्योग की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए किसी योजना को परिकल्पित करने अथवा कोई योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने "भारत तथा कोरोना वाइरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और बहाली सम्बन्धी नीतियाँ" पर अध्ययन कराने के लिए 2021 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) को नियुक्त किया था। अध्ययन के परिणामों के अनुसार कोविड-19 महामारी और तत्पश्चात लगे लॉकडाउन के कारण पर्यटन उद्योग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।

हालांकि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में महामारी से किसी बीमारी या मानसून के पश्चात प्राकृतिक आपदा अथवा आतंकी घटना के कारण हुए किसी नुकसान का पता लगाने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं करवाया गया है।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) और 'केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' की अपनी चल रही योजनाओं के तहत महाराष्ट्र सहित देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन हेतु 'अतुल्य भारत' ब्रांड लाइन के तहत विभिन्न समग्र संवर्धन गतिविधियों का संचालन भी

करता है। स्वदेश दर्शन योजना, प्रशाद योजना और केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय की डिजिटल पहल 'उत्सव पोर्टल' का लक्ष्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटक गंतव्यों के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु सम्पूर्ण भारत के सभी कार्यक्रमों, उत्सवों और लाइव दर्शनों को प्रदर्शित करना है। यह पोर्टल उत्सवों, कार्यक्रमों और ऑनलाइन पूजा/आरती पर माह-वार और राज्य-वार कलेंडर सामग्री प्रदर्शित करता है जिसमें महाराष्ट्र राज्य के कार्यक्रम और उत्सव शामिल हैं।

\*\*\*\*\*

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना के सम्बन्ध में दिनांक 16.03.2023 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 1907 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में विवरण

• महाराष्ट्र में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिपथ/ स्वकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	महाराष्ट्र	तटीय परिपथ 2015-16	सिंधुदुर्ग तटीय परिपथ- सागरेश्वर, तारकरली, विजयदुर्ग (समुद्र तट और क्रीक), मितभाव का विकास।	19.06	18.11
2	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	वाकी- अदासा- धापेवाड़ा- परादसिंघा- छोटा ताजबाग- तेलनखंडी- गिराड़ का विकास	53.96	32.04

• महाराष्ट्र में प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं (करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	महाराष्ट्र	त्रियंबकेश्वर का विकास	2017-18	52.92	27.67

• महाराष्ट्र में केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का नाम	परियोजनाओं का नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	2016-17	महाराष्ट्र	पर्यटन स्थल के रूप में कान्होजी आंग्रे लाइटहाउस को विकसित करने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को केंद्रीय वित्तीय सहायता	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	1500.00	1500.00
2.	2017-18	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन/आधुनिकीकरण।	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	1250.00	1250.00
3.	2021-22	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन/आधुनिकीकरण	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट	3750.00	1875.00